

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited

Registered office: SUDA Bhawan, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010
Email Id: gm.scm@upmsc.in

Website: www.upmsc.in



UTTAR PRADESH MEDICAL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A Government of Uttar Pradesh Undertaking)

Short term Tender Notice

TENDER FOR SUPPLY OF ENVELOPES AND LEAFLETS

Tenders are invited from manufacturers for supply of Envelopes and Leaflets to UPMSC. The details of tender, list and quantity of items, Specifications and Tender Documents are made available on website www.upmsc.in. Sealed tender documents for each item may be submitted in tender box at **UPMSCL Office**, SUDA Building, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010 till **13 July, 2021 up to 15:00 Hrs**”

Managing Director
UPMSCL Lucknow, Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited

Registered office: SUDA Bhawan, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010
Email Id: gm.scm@upmsc.in

Website: www.upmsc.in

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Ltd. (UPMSCL) is a Government of Uttar Pradesh undertaking incorporated under Companies Act, 2013. It has been set up for providing timely and effective Health Care Services to the people of Uttar Pradesh. The key objective of the UPMSCL is to act as the central procurement agency for all essential and specialized drugs, medical equipments for the health care institutions at competitive rates.

The Managing Director, Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Ltd, SUDA Bhawan, 7/23, Sector-7, Gomti Nagar, Extension, Lucknow Lucknow-226010, invites short term tender supply Paper Based Printing of Envelopes with following terms and conditions.

Table-1: Leaflets- Quantity – 75,00,000 (Seventy Five Lakhs)

SN	Category	Value
1	Type of Printing	Printing with Material
2	Category of Printing	Leaflet
3	Mode of Printing	Offset
4	Single/ Double Sided	Double Sided (Both Sided – Front and Back)
5	Colour of Printing	Front Multi-color Back Multi-color
6	Printing Content	Text + Pictorial
7	Paper Material	Art Paper
8	Standards of Paper	Conformity to Indian Standard IS 1848
9	Size of the Paper (in cm)	B5 (17.6 x 25.0)
10	Thickness of Paper in GSM	90 GSM
13	Number of languages of printing	Two
14	Language	Hindi and English

Terms and Conditions:

1. Valid license to manufacture.
2. Two years of Experience in executing similar works in government department.
3. Firm has to submit certificate for non-conviction/self-declaration that it has not been convicted by court of law in India in last three years.
4. Performance security will be 5% of the value of the goods purchased as stated in the Purchase Order. Performance security may be furnished in form of an Account Payee BG/NEFT/RTGS from a nationalized/ scheduled bank approved by RBI. Performance security should remain valid for a period of 03 months from the date of completion of supply. Performance security has to be submitted by each successful manufacturer without any exception before issuing of purchase orders.
5. The supplies have to be initiated within 3 days and completed within 15 days of release of purchase order. Supplies can be received up to 30th day with 0.2% LD charge per day on value of the goods supplied with delay. On completion of 30 days penalty of flat 20%

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited

Registered office: SUDA Bhawan, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010

Email Id: gm.scm@upmsc.in

Website: www.upmsc.in

shall be levied on value of unexecuted portion. The Purchase Order is subject to be cancelled if not supplied within 40 days of its issuance.

6. The consignment has to be delivered to UPMSCL warehouse at Lucknow by the supplier.
7. The payments will be processed within 15 days of date of submission of bills to UPMSCL office, Lucknow. The bills will be processed only after confirmation of receiving of complete ordered quantity for the item.
8. Only Lucknow District based Manufactures will be allowed to participate in the tender.
9. Price quoted by bidders should be including all types of costs.
10. Bidders have to submit a committed quantity of supply in predefined timeline as mentioned above.
11. 50% of the quantity will be given to L1 bidders and rest 50% will be distributed equally to each of successful matching bidders up to L4.
12. Substantial changes in the total quantity may occur as per decision taken by UPMSCL.

Interested bidders qualifying for above conditions may submit their tender with all necessary documents, in tender box at Suda Bhawan, 7/23, Sector -7, Gomti Nagar Vistar, UPMSCL Office, Lucknow 226010 as per timelines given above.

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited

Registered office: SUDA Bhawan, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010

Email Id: gm.scm@upmsc.in

Website: www.upmsc.in

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited

Registered office: SUDA Bhawan, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010

Email Id: gm.scm@upmsc.in

Website: www.upmsc.in

FORMAT FOR PROVIDING DETAILS

SN	Particulars	Value
1	Name of Item	
2	Name of Firm	
3	Address of Firm	
4	Manufacturing Unit Address	
5	Experience of similar works (in Years)	
6	Non Conviction/self-Declaration certificate	
7	Committed Quantity as per Supply schedule	
8	Rate per unit (including all costs)	
	Rate per unit In Words (including all costs)	

Front



कोविड-19



UPMSCL
Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited

सफाई भी - दवाई भी - कड़ाई भी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड रोग की जांच उपचार एवं संदर्भन हेतु दी जाने वाली सेवाएँ

- इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा रोगी की निगरानी तथा परामर्श :
 - होम आइसोलेशन के पात्र मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति की निरंतर निगरानी।
 - किसी होम आइसोलेटेड मरीज के लक्षण युक्त हो जाने अथवा उसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सहायता एवं संदर्भन सुविधाएँ उपलब्ध कराना ।
 - जन सामान्य को कोविड रोग से बचाव के उपायों तथा प्रदेश में उपलब्ध कोविड रोग की जाँच एवं उपचार हेतु उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
 - 247 चिकित्सकीय सलाह ।
- ई-संजीवनी ऐप के माध्यम से घर पर ही अनुभवी चिकित्सकों द्वारा निशुल्क टेली कंसल्टेंसी की सुविधा ।
- सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण ।
- नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क कोविड जाँच तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों हेतु उपचार सुविधा।



Stay Home



eSanjeevaniOPD
STAY HOME APP



कोविड रोग बचाव एवं सावधानियाँ

- सदैव मास्क का प्रयोग करें
- मास्क को ठीक तरह से पूरा मुँह एवं नाक कवर करते हुए लगायें
- सोशल डिस्टेंसिंग (6 फुट की दूरी) का पालन करें
- अनावश्यक घर से बहार ना निकलें
- लक्षण आने पर स्वयं को बाकी परिवार से अलग रखें तथा तत्काल जाँच कराएँ
- अनेक बार सातुन से हाथ धोएँ

कोविड के लक्षण

						
बुखार	खसती	लाजवारी खर्रास	घिर व बदलता दबदबा	दरदर/उल्टी	जघमा पर धक्कते पडना	स्वाद/बसक न आना

विशेष ध्यान रखें

यदि आप के परिवार में कोई व्यक्ति कोविड धनात्मक है तो होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करें, घर से बाहर न निकलें। यदि आप कोविड रोग के लक्षणों से घबराते हैं तो स्वयं को परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रखें, घर से बाहर न निकलें।

सरकारी मेडिकल कोविड एवं अस्पतालों में निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध हैं।



जान अनुरोध केंद्र

समस्त जानकारियों हेतु संपर्क करें



104

आइये ऐसी लगर बनावें, उचित व्यवहार से कोविड को हरायें



सफाई भी - दवाई भी - कड़ाई भी

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited


Registered office: SUDA Bhawan, 7/23 Sec-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010

Email Id: gm.scm@upmsc.in


Website: www.upmsc.in

Back

निगरानी समिति द्वारा कोविड के लक्षण वाले नागरिकों हेतु सहयोगार्थ



स्वास्थ्य किट



लक्षण युक्त व्यक्ति (जिनका कोविड रिजल्ट अभी ज्ञात नहीं है अथवा टेस्ट नहीं हुआ है) हेतु उपचार (व्यस्क व्यक्ति हेतु)

- टेबलेट पेरासिटामोल 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट दिन में तीन बार x5 दिन के लिए (किट में कुल 15 गोली) ●●●
- टेबलेट आईवरमेक्टिन 12 मि.ग्रा. एक गोली व्यस्क व्यक्तियों हेतु दिन में 1 बार रात्रि में भोजन के उपरांत x3 दिन के लिए (गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं दिया जाना है) (किट में कुल 03 गोली) ●●
- टेबलेट एजिथ्रोमायिसिन 500 मिलीग्राम दिन में एक बार x3 दिन के लिए (किट में कुल 05 गोली) ●●
- टेबलेट विटामिन-सी, व्यस्क व्यक्ति हेतु 500 मि.ग्रा. एक गोली दिन में एक बार x7 दिन के लिए (किट में कुल 07 गोली) ●●
- टेबलेट जिंक, व्यस्क व्यक्ति हेतु 50 मि.ग्रा. एक गोली दिन में एक बार x7 दिन के लिए (किट में कुल 07 गोली) ●●
- टेबलेट/कैम्बूल विटामिन बी काम्प्लेक्स, व्यस्क व्यक्ति हेतु 1 टेबलेट/कैम्बूल दिन में एक बार x7 दिन के लिए (किट में कुल 07 गोली) ●●
- विटामिन डी-3, व्यस्क व्यक्ति हेतु - 60,000 यूनिट हर सप्ताह में एक बार दूध अथवा पानी के साथ, तीन सप्ताह तक (किट में कुल 03 गोली) ●●
- दिन में तीन से चार बार भाप लें
- सांस संबंधी व्यायाम/योग/प्राणायाम दिन में 20 से 30 मिनट तक अवश्य करें (यदि आप सहज महसूस कर रहे हो तभी करें)
- दिन में तीन से चार बार श्वसन दर (रिस्परेटरी रेट) तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन (पल्स ऑक्सिमिटर से) अवश्य नापें, ऑक्सिजन सेचुरेशन 94% से अधिक होना चाहिए।
- पर्याप्त मात्रा में हल्का गर्म/गुनगुना पानी लें, व्यस्क व्यक्ति - 3 से 4 लीटर प्रतिदिन।
- यदि आप पूर्व में डायबिटीज, उच्च रक्तचाप अथवा किसी अन्य क्रॉनिक (दीर्घावधि) बीमारी के लिए उपचार ले रहे थे, तो उसे अपने चिकित्सक के परामर्श के साथ जारी रखें।

हेल्पलाइन नंबर		सतरे के लक्षण
राज्य स्तरीय	1800-180-5145 एवं 104	1. लगातार अनेक दिनों तक 101 से अधिक का बुखार
जनपद स्तरीय		2. सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी होना
ब्लॉक स्तरीय		3. पल्स ऑक्सीमीटर से नापने पर ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम आना (कृपया थोड़ी देर लगातार देखें)
आशा		4. अम की स्थिति
निगरानी समिति		

Final Samples may be changed and will be provided at the time of Purchase order.